KDDL Limited

Kamla Centre, SCO 88-89, Sector 8-C, Chandigarh - 160 009, INDIA. Tel: +91 172 2548223/24, 2544378/79 Fax: +91 172 2548302, Website:www.kddl.com CIN-L33302HP1981PLC008123



Ref: KDDL/CS/2023-24/21

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai - 400 051 Date: 28th May, 2023

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

Trading Symbol: KDDL Scrip Code: 532054

Subject: Newspaper Publication – Financial Results

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed copy of newspaper publication for Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2023.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly

For KDDL Limited

Brahm Prakash Digitally signed by Brahm Prakash Kumar Date: 2023.05.28 17:40:18 +05'30'

Brahm Prakash Kumar Company Secretary

FE SUNDAY

Authorised Officer, Indian Bank



PANYAM CEMENTS AND MINERAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L26940AP1955PLC000546

REGD. OFFICE: 10/156, CEMENT NAGAR, KURNOOL - 518 206 (A.P) Phone: 08514-222274, email: panyam1956@gmail.com, Website: www.panyamcements.in

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

SI.	Particulars	QUARTE	R ENDED	YEAR EN	NDED
No.	Particulars	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	269.99	8 88	3,885.76	
2	Net Profit for the period (before Tax, exceptional and / or Extraordinary items)	(840.95)	(758.15)	(3,591.54)	20,808.62
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and / or Extraordinary items)	(3,784.96)	(3,317.48)	(6,535.55)	19,959.17
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and / or Extraordinary items)	(3,784.96)	(3,317.48)	(6,535.55)	20,274.74
5	Total comprehensive income for the period (Comprising profit/ (loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	(3,785.51)	(3,316.52)	(6,533.69)	20,276.02
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- per share)	802.14	40.11	802.14	40.11
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Balance Sheet of the previous year	(3,785.51)	(6,245.47)	(12,779.16)	(6,245.47)
8	Earnings per equity share:		97	- 09	- 00
	Basic	(237.88)	(827.16)	(410.76)	5,055.15
	Diluted	(237.88)	(41.36)	(410.76)	252.76

1) The above audited results were reviewed by Audit committee and approved by the Board of Directors at their Meetings held as on 27-05-2023

2) The company's business operations comprises single operating segments viz, Cement and Cementitious Materials 3) The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting standards (IND AS) as prescribed under section 133 of the companies Act 2013 read with Companies (Indian Accounting standards) Rules 2015 (as

4) The figures for the Quarter ended 31-03-2023 and 31-03-2022 are the balancing figures between audited results in respect of full financial year and published year to date upto the third quarter of the relevant financial year.

5) The figures for the corresponding previous Year/Quarter have been restated/regrouped and reclassified, wherever necessary to conform with those of the Quarter under Report.

6) Exceptional items of Rs 29.44 crores include refurbishing cost of Rs 10.86 crores incurred to restart the Operations after a gap of 4 years. The Company's operations were ceased in December 2018.

7) The company started its Clinker production operations on 02nd March 2023, the figures for current year are not directly comparable with that of previous year figures.

8) The company had allotted 76,20,300 Equity shares of Rs 10/- each on preferential basis to its promoters on 03-Feb -2023 Consequently the Basic and Diluted Earnings Per Share were worked out on prorata basis in accordance with IND AS 33 9) The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 filed

with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the un-audited financial results are available on the company's website (www.panyamcements.com) and on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com)

for Panyam Cements & Mineral Industries Limited

Place: Hyderabad May 27, 2023. Jagathrakshakan Srinisha (Managing Director)



STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2023

(Rs. in Lakhs except earnings per share)

S.	Particulars	<u> </u>	Standalone	. 1		Consolidated	
No.	(Refer notes below)	Quarter ended 31 March, 2023	Correspond -ing Quarter ended 31 March, 2022	Year to date figures for the current period ending 31 March, 2023	31 March,	-ing Quarter ended 31 March, 2022	Year to date figures for the current period ending 31 March, 2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	8759	6421	36361	30645	22883	113876
2	ordinary activities (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	1697	1004	8924	2983	1566	10761
3	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	1697	1004	8924	2983	1566	10761
4	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	1267	905	6923	2126	1120	7698
	(Loss) for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1289	901	6907	2103	1114	7650
6	Paid-up equity share capital (Face value in Rs 10 per share)	1254	1274	1254	1254	1274	1254
7	Earnings per share (of Rs 10/-each) (not annualized):						
	(a) Basic (Rs)	9.97	7.11	54.49	12.71	7.62	42.18
	(b) Diluted (Rs)	9.97	7.11	54.49	12.71	7.62	42.18

1. The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 26 May 2023. The Audited financial results for the current quarter and year ended 31 March 2023 have been subjected to limited to by the Statutory Auditors of the Company. The unmodified review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange.

The above is the extract of the detailed format of the Audited quarterly and annual financial result filed with the

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nse.india.com and the company's website www.kddl.com

For and on the behalf of Board of Directors

Place: Gurugram Date : 26 May, 2023

Yashovardhan Saboo (Chairman and Managing Director) DIN-00012158

S. Name of the





Zonal office Gurgaon G 41, Connaught Place, New Delhi 110001

Possession Notice (For Immovable Property) [Under Rule-8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the INDIAN BANK, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices on the date mentioned against account and amount stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notices. The Borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said

rules on the dates mentioned against account and amount below. The Borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to

the charge of the Indian Bank for the amount along with future interest, cost, expenses and charges.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor attention is invited to provisions of section 13(8) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

Sr.	Name of the Account/	Description of the Immovable property	Date of Demand Notice	Amt o/s (as mentioned in the
No.	Borrower & address		Date of Possession	Notice u/s 13(2)
	Branch:- Faridabad Borrower, 1. M/s Aditya Enterprises Shop No 50, Tikona Park, NIT Faridbad, Haryana-121001 2. Mrs. Himanshi Gogia D/o Puneet Kumar, R/o, 1-C-/86, NIT, Faridabad, Haryana-121001 3. Mr. Puneet Kumar Gogia S/o Jeevan Dass Gogia, 1-C-/86, NIT Faridabad, Haryana-121001 4. Mrs. Nidhi Gogia W/o Puneet Kumar, R/o, 1-C-/86, NIT, Faridabad, Haryana-121001	at NIT Faridabad in the name of Mr Puneet Kumar Gogia S/o Shri Jeewan Dass Gogia Area 122sq.yds Bounded as: North - House No : IC -85, South : Common Passage and House No : IC -87, West : Remissing Part of	25-05-2023	Rs. 81,74,225.00 together with agreed interest from 14/11/2022

इंडियन बैंक

Indian Bank

ALLAHABAD

Branch: 55A Navyug Market, Ghaziabad-201001 Email: N562@indianbank.co.in

"APPENDIX- IV-A" [SEE PROVISO TO RULE 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Borrower & Mortgagor: Mrs. Laxmi W/o Mr. Rajan, Address-1: House No. 642, Vivekanand Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001 Address-2: House No. 51, Sector - 04, Vivekanand Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001 Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001 Address-2: House No. 51, Sector-04, Address-3: House No. 406, Rahul Vihar, Daulatpura, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201009

Mrs. Laxmi W/o Mr. Rajan (Legal Heir of deceased Borrower & Mortgagor Late Mr. Rajan S/o Mr. Sati Ram) Address-1: House No. 642, Vivekanand Nagar Vivekanand Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201001

Term Loan A/c No. 50457717902

🗥 इलाहाबाद

Date: 25-05-2023, Place: Faridabad

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical (whichever is applicable) possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank, Navyog Market (eAB) Ghaziabad branch, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "whatever there is" on 20.06.2023 for recovery of Rs.26,49,983/-(Rupees Twenty Six Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred Eighty Three Only) (as on 02.06.2022) with interest thereon, due to the Indian Bank, Navyog Market (eAB) Ghaziabad branch, Secured Creditor from (Borrower) Mrs. Laxmi W/o Mr. Rajan and Late Mr. Rajan S/o Mr. Sati Ram, Address - House No. 51, Sector-04, Vivekanand Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001.

The specific details of the property intended to be brought to sale through e-auction mode are enumerated below:

Detailed description of the Property All the part & parcel of House No. 51, Ground and First Floor (With Roof Rights), situated at Vivekanand Nagar, Sector – 04, Tehsil & (with Boundaries and area) District Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001, Total Area - 38.018 Sq Mtr and Covered Area (Including Ground Floor, First Floor & Balcony) – 79.21 Sq. mtr. **Boundaries**: East: 9.15 Meter Wide Road West: House No. 60 North: House No. 50 South: House No. 52 Encumbrances on property, if any Reserve Price Rs. 29.90 Lakh (Rupees Twenty Nine Lakh Ninety Thousand Only) **EMD Amount** Rs. 2.99 Lakh (Rupees Two Lakh Ninety Nine Thousand Only) Bid incremental amount Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only) Date and time of e-auction **20.06.2023** (from 11:00 AM to 05:00 PM)

Bidders are advised to visit the website (www.mstcecommerce.com) of our e auction service provider MSTC Ltd to participate in online bid. For Technical Assistance Please call MSTC HELPDESK No. 033-22901004 and other help line numbers available in service providers help desk. For Registration status with

MSTC Ltd, please contact ibapiop@mstcecommerce.com and for EMD status please contact ibapifin@mstcecommerce.com. For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://ibapi.in and for clarifications related to this portal.

please contact help line number '18001025026' and '011-41106131'. Date: 25.05.2023, Place: Ghaziabad **AUTHORISED OFFICER, INDIAN BANK**



Shristi Infrastructure Development Corporation Limited

Regd. Office: Plot No. X - 1, 2 & 3, Block-EP, Sector V, Salt Lake City, Kolkata-700 091 CIN - L65922WB1990PLC049541

Phone No.: (033) 4020 2020 / 4015 4646

STANDALONE

E-mail: investor.relations@shristicorp.com, Website: www.shristicorp.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023 (₹ in Lakhs)

SI.	Particulars	Be-sever	Quarter Ended		Year	Ended		Quarter Ended		Year	Ended
No.		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
- ,		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	977.95	1,747.77	364.18	5,205.63	3,665.76	4,268.46	5,478.29	10,734.00	22,575.45	27,745.95
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional item)	(1,822.44)	(1,455.16)	(2,653.87)	(6,460.81)	(5,233.49)	(1,626.12)	(1,702.02)	(17,039.08)	(6,869.57)	(20,737.53)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional item)	(2,871.39)	(1,455.16)	(2,653.87)	(7,509.76)	(5,233.49)	(2,675.07)	(1,702.02)	(17,039.08)	(7,918.52)	(20,737.53)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional item)	(3,058.10)	(1,447.96)	(2,691.44)	(7,841.53)	(5,494.81)	(2,852.97)	(1,702.78)	(15,370.13)	(8,304.82)	(19,308.85)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(3,062.41)	(1,446.87)	(2,682.45)	(7,842.58)	(5,490.47)	(3,093.06)	(2,209.85)	(17,484.23)	(9,784.98)	(21,423.97)
6	Piad up Equity Share Capital (Face value Rs. 10/-)	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	(5,060.48)	(1,761.58)	3,018.58	(5,060.48)	3,018.58	(24,473.42)	(18,736.27)	(12,044.34)	(24,473.42)	(12,044.34)
8	Net Worth	(2,840.48)	458.42	5,238.58	(2,840.48)	5,238.58	(22,253.42)	(16,516.27)	(9,824.34)	(22,253.42)	(9,824.34)
9	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	49,499.83	54,560.84	54,627.30	49,499.83	54,582.92	49,499.83	112,610.85	106,898.83	49,499.83	115,374.94
10	Debt Equity Ratio	(17.43)	122.34	10.42	(17.43)	10.42	(4.78)	(6.91)	(11.74)	(4.78)	(11.74)
11	Earning per Share (of Rs 10/- each)										
	(i) Basic (Rs.)	(13.78)	(6.52)	(12.12)	(35.32)	(24.75)	(13.86)	(9.96)	(78.56)	(44.02)	(96.28)
	(ii) Diluted (Rs.)	(13.78)	(6.52)	(12.12)	(35.32)	(24.75)	(13.86)	(9.96)	(78.56)	(44.02)	(96.28)
12	Debenture Redemption Reserve	2,416.68	2,315.98	2,013.90	2,416.68	2,013.90	2,416.68	2,315.98	2,013.90	2,416.68	2,013.90
13	Debt Service Coverage Ratio	(0.71)	0.11	(0.61)	(0.13)	0.17	(0.45)	0.30	(0.05)	(0.03)	0.14
14	Interest Service Coverage Ratio	(0.94)	0.13	(0.65)	(0.16)	0.17	(0.59)	0.35	(0.04)	(0.03)	0.12

Note: 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 26th May, 2023 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e BSE website (www.bseindia.com), Calcutta Stock Exchange Limited (www.cse-india.com) and Company's website (www.shristicorp.com).

> For and on behalf of the Board of Directors Shristi Infrastructure Development Corporation Limited Sunil Jha Managing Director

Physical / Dues to be recovered Reserve Price (In Lacs)

to avoid any inconvenience.

Authorised Officer, Union Bank of India

Chandigarh

CONSOLIDATED

Representative of creditors in a class (Three names for each class) 4. (a) Relevant Forms and

(b) Details of authorized representatives

Date: 28/05/2023 Place: New Delhi

financialexp.epap.in

FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF INTEC INDIA LIMITED

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

	RELEVA	NT PARTICULARS
1.	Name of corporate debtor	INTEC INDIA LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	27/01/2014
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies-Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U29220DL2014PLC264073
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	House No. 19-B, Ground Floor, Arjun Nagar, Saldarjung Endave, New Delhi-110029
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	26/05/2023
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	22/11/2023
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Dr. LEKHRAJ BAJAJ Regd No. IBBI/IPA-002/IP-N00039/2017-18/10078
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	107, Agarwal Prestige Mall, Adjoining to M2K. Pitampura, Delhi-110034 lekhrajbajaj@rediffmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	107, Agarwal Prestige Mall, Adjoining to M2K. Pitampura, Delhi-110034 intec.cip@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	09/06/2023
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	N.A.
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised	NA.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench VI has ordered the commencement of a corporate Insolvency Resolution Process of the INTEC INDIA LIMITED on 26/05/2023

The creditors of INTEC INDIA LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 09/06/2023 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The Financial Creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Dr. LEKHRAJ BAJAJ

Interim Resolution Professional of INTEC INDIA LIMITED Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00039/2016-17/10078 AFA Valid till 21/11/2023

Web link: http://bbi.gov.in/downloadform.html



properties on all working days from 12:00 Noon to 04:00 PM with prior appointment.

Date: 26.05.2022, Place: New Delhi

Place : Kolkata

Name & address of

Dated : 26th May, 2023

REGIONAL OFFICE, NEW DELHI 1, FAIZ ROAD, JHANDEWALAN, NEW DELHI-110005, E-mail: cb8821leg@unionbankofindia.bank

SALE NOTICE For Sale of Immovable Properties

Interest Act, 2002 read with Rules 8/9 of the Security Interest (Enforcement) Rule. 2002 with amendments on time to time. Notice is here by given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described Immovable properties mortgaged/ charged to the Secured Creditor the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (secured creditor) will be sold on "As is where is" "As is what is' and 'Whatever there is" on the date mentioned above, for recovery of dues as mentioned here under from the below mentioned Borrower (s) & Guarantor (s), The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder:

Description of the Immovable property put for auction

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable properties on 14.06.2023 between 11:00 am to 5:00 pm Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and enforcement of Security

No	Branch	Borrower & Guarantor	Description of the inimovable property put for adetion	Symbolic Possession	from Borrower	EMD @10% Bid Increment	Contact No. of Authorized Officer
1.	Preet vihar		Shop no. 23, Second Floor, Shilpi Arcade, Plot No. 14, Sector-04, Commerical Market, Vaishali, Ghaziabad,	Physical	1- 10.64 Lacs	25.63	Anoop Kumar,
	(05322)	First Floor Defence Colony Bhopura Ghaziabad, Uttar Prades, & 2. M/s M.S. Associates , (Prop: Mrs Manju			2- 11.20 lacs 3- 11.15 lacs + Interest	2.57	Mob.: 8607271414
		Sharma), C-120, Defence Colony, Bhopura Ghaziabad, U.P., Uttar Pradesh, 3. M/s D V Enterprises			+ Expenses (as on date)	0.25	0007277777
2.	Vasundhra		Flat No. 5 First Floor, Plot no. B 39, Area, Krishna Apartment, extent 450 Sq.ft., Block –B, Shalimar Garden	Symbolic	Rs. 2.45 lacs + Interest	17.1	Sri Chandi
	enclave (05632)	Krishna Apartment, Block –B, Shalimar Garden ExtnII, Sahibabad.	ExtnII, Sahibabad, Ghaziabad U.P.		+ Expenses (as on date)	1.71	Kumar - Mob.:
	(03032)	Sallibabau,				0.25	8076933102
3.	Tilak Nagar		MIG Flat no. 006 located on the lower ground floor of Regent Block in Nine stories building freehold building in	Symbolic	Rs. 13.65 lacs + Interes		Sri Vikas
	(05252)	ground floor of Regent Block in Nine stories building freehold building in society known as Supertech Estate	society known as Supertech Estate Sector-9, Vaisahli Ghaziabad U.P. super area is 977 SFT.		+ Expenses (as on date)	4.23	Rathee Mob.:
		Sector-9, Vaisahli Ghaziabad U.P.				0.25	9350370020
4.		1. Mr. Jetender Singh Lamba, S/o Shri M.S.Lamba	ALL THAT PROPERTY CONSISTING OF SHOP/PORTION OF GROUND FLOOR BERARING PVT.NO –	Physical	Rs. 9.48 lacs + Interes		Manish Ranjan
	(37930)	B-3/3, Ground Floor (Back Side), Model Town, New Delhi – 110009	G-5 AREA MEASURING 140SQ.FT (APPROX) EXCLUDING ROOF RIGHTS OF PROPERTY BEARING NO B-3/9 SITUATED AT MODEL TOWN DELHI IN THE NAME OF MR. JETENDER SINGH LAMBA WHICH		+ Expenses (as on date)	1.74	Mob.: 9873776129
		- 110009	IS BOUNDED BY: On the North by: Shop G-6, On the South by: Shop G-4, On the East by: B-3/10, On the West by: Passes B-3/8			0.25	3013110129
5.	Kirti Nagar	Vibrant India,	B-34-5889, Street No. 8, Laxmi Nagar, Jassian Road, Village Jassian, Ludhiana, Punjab – 141001	Physical	Rs. 17.65 Lacs +	25	Mr. Rupesh
	(53220)	E-320, Sector-5, Bawana Industrial Area, Delhi - 110039			Interest + Expenses (as on date)	2.5	Kumar Mob.:
					(as on date)	0.25	8090123464
6.	SB Sarafa	Ahmadi Khatoon,	Residential Property: Flat no. GF-2, Ground Floor, Plot no. A-6-4A, DLF colony, Ankur Vihar, Loni Tehsil,	Symbolic	Rs. 17.86 lacs + interest		Mr. Luvkush
	Market (30770)	A-6/4A, Ground Floor, DLF, Ankur Vihar, Loni Ghaziabad	District Ghaziabad, UP, Area -83.61 Ssq.m. or 900 sq.ft		+ expenses (as on date)	3.6	Mob.: 8210033705
						0.25	
7.	Mayapuri SME		Flat No. 14 C, Block D-1-C Janakpuri, New Delhi - 110058	Symbolic	Rs.18.76 lacs + interest		Mr. Diwakar
	(12562)	Flat no14, C Block -D-1-C, Janakpuri, New Delhi - 110058			+ expenses (as on date)	4.86	Kumar, Mob.:
		110000				0.25	9924996649
on th	ne date and time o	of auction specified above. (2) Bank reserves the rights to ca	done through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com/auctionhomencel/postpone the auction at any point of time. (3) For further details and complete Terms & Conditions of the Interested person may also contact concerned authorised officer (5) Please contact the concerned brance	sale, please r	efer: on MSTC website/p	eposited 2 days before the	or to auction date

सार्वजनिक सुचना

(जिस किसी का भी इससे संबंध हो) मै. स्टैन्जा डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., पानीपत के विरुद्ध माननीय ऋण वसुली अधिकरण-I, दिल्ली (ऋण वसुली अधिकरण-III का अतिरिक्त प्रभार) हारा यथा स्थित आदेश

माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I (अतिरिक्त प्रभार ऋण वसुली अधिकरण-III), ने अंतरण/अपील/1/2023 में आदेश तिथि 24.05.2023 के माध्यम से आर.सी नं. 249/2016 एवं 251/2016 में विद्वान वसली अधिकारी-I. ऋण वसुली अधिकरण-II, दिल्ली के आदेश तिथि 20.04.2023 के विरुद्ध चयनित अपील में (मै. स्टैन्जा डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.) की सम्पत्ति के संदर्भ

में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है। यदि कोई व्यक्ति मै. स्टैन्जा डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. की ऐसी सम्पत्ति का खरीद-फरोख्त करते हैं तो ऐसा वे अपने स्वयं की जोखिम एवं परिणामों पर करेंगे। प्राधिकृत अधिकारी

एसेट्स केयर एंड रीकन्स्ट्रक्शन एण्टरप्राईजेज लि.

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L27106DL1985PLC021811 पंजी. कार्या. 5140-41/32, चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली, सदर बाजार, दिल्ली-110066 कार्पोरेट कार्यालय: 19, जी.टी.रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 ईमेलः nirajispatindustries@gmail.com, वेबसाइटः www.nirajispat.in फोन नं. 011-23551821, 011-64581675

(रु. लाख में (31.03.2023) के आंकडे (31.03.2022) (अंकेक्षित) (31.3.2023) (अंकेक्षित) (नीचे टिप्पणी देखें) (अंकेक्षित) 126.51 12.25 व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल) अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है 1.54 27.80

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमार्ह वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव को फुट नोट द्वारा उद्घाटित किया जायेगा।

जो भी लागु हो, इंड-एएस नियमावली/एएस नियमावली के अनुसार विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के लाभ तथा हानि के विवरण में समायोजित किया गया है।

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये

5.12

27.80

1.54

DIN:06813394

नामः चैतन्य चौधर्र पदनामः निदेशक एवं सीईओ

तिथि: 26.05.2023

निक्की ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड CIN: L65999DL1986PLC024493

पंजीकृत कार्यालयः 3रा तल, पूर्वी और केन्द्रीय विंग, 124 थापर हाउस, नई दिल्ली- 110001 फोनः 011-6400323 वेबः www.nikkiglobal.com, ई-मेलः ngfltd@rediffmail.com

> 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सभी राशियां लाखों मे

क्र.		31 मार्च,	31 मार्च,	मार्च, 2022
सं.	विवरण	2023 को	2023 तक	पूर्व वर्ष में
		समाप्त	वर्ष दर	समाप्त अनुरूप
		तिमाही ⁄ वर्ष	आंकड़े	तिमाही
1.	प्रचालनों से कुल आय	15.44	16.37	0.22
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, स्वीकार्य और असाधारण मदों से पूर्व)	11.50	2.35	(1.46)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄ (हानि) (स्वीकार्य और असाधारण के बाद)	11.50	2.35	(1.46)
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄ (हानि) (स्वीकार्य और असाधारण मदों के बाद)	11.14	1.99	(1.46)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]	11.14	1.99	(1.46)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	341.97	341.97	341.97
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	0.00	(194.10)	0.00
8.	10/- रु. प्रति के आय प्रति शेयर (जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए)	0.03	0.06	0.00
1. 2.	मूलः तनुकृतः			

ए) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकृटीकरण अपेक्षांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाईटों और सुचीबद्ध प्रविष्टि पर उपलब्ध हैं।

कृते निक्की ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

राजेश कुमार पांडे (प्रबंध निदेशक) दिनांक: 26.05.2023 DIN: (09745776)



Website: www.shivkamalimpex.com CIN: L52110DL1985PLC019893

Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com, info@shivkamalimpex.com **Extract of Audited Financial Results for the**

	Quarter and Y	ear ende	d March	31, 2023	
	90			(F	Rs. In lakhs)
SI.		Quarte	r ended	Year	ended
No.	Particulars	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1,	Total Income from Operations	7.85	6.72	33.51	31.41
2,	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.97)	2.87	13.53	19.27
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.97)	2.87	13.53	19.27
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.51)	2.17	10.13	14.42
5,	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.51)	2.17	10.13	14.42
6.	Paid up Equity Share Capital	100.56	100.56	100.56	100.56
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet	-	-	556.54	546.41
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter) Basic Diluted	Rs. (0.15) Rs. (0.15)	Rs. 0.21 Rs. 0.21	Rs. 1.01 Rs. 1.01	Rs. 1.43 Rs. 1.43

Notes: The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www. shivkamalimpex.com.

The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on 27-05-2023.

By the Order of the Board For Shivkamal Impex Limited

Place: New Delhi Manu Jain Date: 27.05.2023 (Director)

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नियर इंडस्ट्रियल ढेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार–125005 (हरियाणा) ईमेलः info@hisarmetal.com; वेबसाइटः www.hisarmetal.com फोन: (01662) 220067, 220367, 220738, फैक्स: (01662) 220265

CIN: L74899HR1990PLC030937 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम (रू. लाखों मे निर्दिष्ट को छोडकर)

0	विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2023	समाप्त विमाही 31.12.2022	समाप्त तिमाही 31.03.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2023	समाप्त वर्ष 31.03.2022
		(अंकेक्षित)	(अनंकेसित)	(अंकेसित)	(अंकेक्षित)	(अंकेसित)
1	प्रचालनों से कुल आय (अन्य आय सहित)	5935	5940	6680	27683	23845
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण मदों से पूर्व)	232	323	628	1557	1622
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	232	323	628	1557	1622
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	104	241	462	1095	1206
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और जन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	104	241	462	1095	1206
6	इक्विटी शेयर पूंजी	540	540	540	540	540
7	रिजर्व्स (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व्स को छोडकर) जैसा कि अंकेक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है				4885	3844
8	प्रति शेयर आय (रू. 10 / – प्रत्येक) (चालू और बंद प्रचालनों के लिए)					

- ऊपरोक्त सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com व www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.hisarmetal.com) पर उपलब्ध है।
- निदेशक मंडल ने आज यानि 27 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वितीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक रू 10 के इविवटी शेयरों पर @10% यानि रू 1/- प्रति शेयर के लाभांश सिफारिश की है जो कि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से हस्ता/-(अभिराम तायल) प्रबंध निदेशक DIN 00081453

20.28

स्थान : हिसार (हरियाणा) दिनांकः 27 मई, 2023

बेसिक एवं डायल्युटिड

(CIN: L33302HP1981PLC008123)

Regd. Office: Plot No. 3, Sector – III, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) - 173220 Tel.: +91 172 2548223 / 24 Fax: +91 172 2548302 Website: www.kddl.com Email id: investor.complaints@kddl.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2023

(Rs. in Lakhs except earnings per share)

S.	Particulars		Standalone			Consolidated	
No.	(Refer notes below)	Quarter ended 31 March, 2023	Correspond -ing Quarter ended 31 March, 2022	figures for the current period ending 31 March, 2023	Quarter ended 31 March, 2023	Correspond -ing Quarter ended 31 March, 2022	Year to date figures for the current period ending 31 March, 2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	8759	6421	36361	30645	22883	113876
2	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	1697	1004	8924	2983	1566	10761
3	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	1697	1004	8924	2983	1566	10761
4	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	1267	905	6923	2126	1120	7698
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1289	901	6907	2103	1114	7650
6	Paid-up equity share capital (Face value in Rs 10 per share)	1254	1274	1254	1254	1274	1254
7	Earnings per share (of Rs 10/-each) (not annualized):						
	(a) Basic (Rs)	9.97	7.11	54.49	12.71	7.62	42.18
	(b) Diluted (Rs)	9.97	7.11	54.49	12.71	7.62	42.18

1. The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 26 May 2023. The Audited financial results for the current quarter and year ended 31 March 2023 have been subjected to limited to by the Statutory Auditors of the Company. The unmodified review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange.

The above is the extract of the detailed format of the Audited quarterly and annual financial result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,. The full format of the Audited financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nse.india.com and the company's website www.kddl.com

For and on the behalf of Board of Directors Yashovardhan Saboo Finance

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) सीआईएन : L65910MH1984PLC032639

पंजीकृत कार्यालयः युनिट नंबर 601, 6ठी मंजिल, पीरामल अमिती बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉरपोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई-400070, दूरभाष : +91 22 3802 4000 शाखा कार्यालयः झांसी-प्रथम तल, स्टीफेन हाउस, ग्वालियर रोड, सामने मुन्ना लाल पाँवर हाउस, गांधीगर का टपरा झांसी. उत्तर प्रदेश-284001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट IV के अनुसार अचल सम्पत्ति हेतु जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनें

लिमिटेड (पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम : के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की मांग सुचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज के साथ नीचे वर्णित राशि के लिए पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के चार्ज के अधीन होगा।

郊. सं.	कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा करने की तिथि
1.	LC-0000232, शाखा-झांसी, श्री/ श्रीमती नितिन साहू (कर्जदार), श्री/श्रीमती नीता साहू (सह-कर्जदार), श्री/श्रीमती आशीष चंद्र बिदुआ (सह-कर्जदार), श्री/श्रीमती जगदीश साहू (गारंटर)	विहार महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के पास, झांसी झांसी उत्तर प्रदेश- 284001	रु. 4,98,231/- (रुपये चार लाख अठानवे हजार दो सौ इकतीस मात्र) के लिए	23-मई- 2023 (सांकेतिक)
2.	LC-0000705, शाखा-झांसी, श्री/श्रीमती राधे श्याम गोस्वामी (कर्जदार), श्री/श्रीमती सावित्री गोस्वामी (सह-कर्जदार)		o ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	23-मई- 2023 (सांकेतिक)
3.	LC-00000686, शाखा-झांसी, श्री/श्रीमती संजय कुमार (कर्जदार), श्री/श्रीमती सपना कुमार (सह-कर्जदार)			23-मई- 2023 (सांकेतिक)
	य : 28 मई, 2023 न : झांसी	,	ह./- (अधि पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग प (पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पो	

आरक्षित मल्या धरोहर राशि कल ऋण बकार

SBFC

ऋणकर्ताओं) / मांग सचना तिथि

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वॉयर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी—कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई—400059 शाखा कार्यालय : रु2478/4, प्रथम तल, गरेवाल हॉस्पिटल के पास, जनता नगर, गिल रोड लूधियाना–141003

नीलामी सह विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''सरफॉएसि अधिनियम'') के तहत निम्नवर्णित उधारकर्ता/ओं से बकाया राशि की वसूली करने के लिये यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण किये जाने के अनुपालन में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यहां नीचे विवरणितानुसार प्रतिभूत ऋणदाता के अधिग्रहण में रखी गयी अचल संपत्ति का 'जैसी है जहां है आधार', 'जैसी है जो हैं आधार' तथा 'जैसी है वहां जो कुछ भी है आधार' पर क्रय करने के लिये मोहरबंद लिफाफों में प्रस्ताव / बोलियां आमंत्रित की जाती हैं. जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं:--

अचल संपत्ति

2. सरोज बाला, 3. राजेश कुमार, 4. अंगूरी देवी, मकान नंबर 1929 / 28 एसटी. नं. 4, गांधी नगर, लुधियाना, पंजाब — 141008 9 दि अ 34 10 1. फ्रेंड्स ट्रेड्स, पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 18 / 1 सुभाष नगर, लुधियाना, पंजाब — 141008, चौवह	दिसंबर 2021 45,41,932 / — रुपये पैंतालीस एक इकतालीस एन नी सी बत्तीस मात्र) देसंबर 2021 के अनुसार, प्लस अप्रयुक्त ब्याज	सपित भूखंड के समस्त भाग तथा अश जो एम.सी. नं. बी—।।/1929/27/1926/एच—1 (वर्ष 2013—2014 के लिए टी. एस. फॉर्म—। के अनुसार) संपत्ति अधिमापन 75 वर्ग गज, जो खसरा सं. 45/16/2 खाता सं. 1311/1413, 1414 में समाविष्ट जमाबंदी वर्ष 1965—66 के अनुसार (खाता सं. 2899/3287, जमाबंदी वर्ष 2011—12 के अनुसार) जो ग्राम तरफ कराबारा, सुरिंदर नगर के रूप में विदित आबादी, तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है।	रु. 28,00,000 / — (रुपये अड्डाईस लाख मात्र)	रु. 2,80,000 / – (रुपये दो लाख अस्सी हजार मात्र)	रु. 59,82,324 / - (रुपये उनसव लाख बयासी हजार तीन स चौबीस मात्र)
3. राजेश कुमार, 4. अंगूरी देवी, मकान नंबर 1929 / 28 एसटी. हजार नं. 4, गांधी नगर, लुधियाना, पंजाब — 141008 9 दि अ 1. फ्रेंड्स ट्रेंडर्स, पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 18 / 1 सुभाष नगर, लुधियाना, पंजाब — 141008, 2. रवींद्र कुमार,	रुपये पैंतालीस ाख इकतालीस ार नौ सौ बत्तीस मात्र) देसंबर 2021 के अनुसार, प्लस अप्रयुक्त ब्याज	1926 / एच—1 (वर्ष 2013—2014 के लिए टी. एस. फॉर्म—। के अनुसार) संपत्ति अधिमापन 75 वर्ग गज, जो खसरा सं. 45 / 16 / 2 खाता सं. 1311 / 1413, 1414 में समाविष्ट जमाबंदी वर्ष 1965—66 के अनुसार (खाता सं. 2899 / 3287, जमाबंदी वर्ष 2011—12 के अनुसार) जो ग्राम तरफ कराबारा, सुरिंदर नगर के रूप में विदित आबादी, तहसील	(रुपये अहाईस	(रुपये दो लाख अस्सी	(रुपये उनसव लाख बयासी हजार तीन स
मकान नंबर 1929 / 28 एसटी. हजार नं. 4, गांधी नगर, लुधियाना, पंजाब — 141008 9 दि अ अ 10 1. फ्रेंड्स ट्रेंडर्स, पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 18 / 1 सुभाष नगर, लुधियाना, पंजाब — 141008, 2. रवींद्र कुमार,	ार नो सो बत्तीस मात्र) देसंबर 2021 के अनुसार, प्लस अप्रयुक्त ब्याज	75 वर्ग गज, जो खसरा सं. 45/16/2 खाता सं. 1311/1413, 1414 में समाविष्ट जमाबंदी वर्ष 1965–66 के अनुसार (खाता सं. 2899/3287, जमाबंदी वर्ष 2011–12 के अनुसार) जो ग्राम तरफ कराबारा, सुरिंदर नगर के रूप में विदित आबादी, तहसील	अंहाईस		हजार तीन र
नं. 4, गांधी नगर, लुधियाना, पंजाब — 141008 9 दि अ अ अ अ 10 10 1. फ्रेंड्स ट्रेडर्स, पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 रुप (रुप लुधियाना, पंजाब — 141008, चौवह कुमार,	मात्र) देसंबर 2021 के अनुसार, प्लस अप्रयुक्त ब्याज	खाता सं. 1311 / 1413, 1414 में समाविष्ट जमाबंदी वर्ष 1965–66 के अनुसार (खाता सं. 2899 / 3287, जमाबंदी वर्ष 2011–12 के अनुसार) जो ग्राम तरफ कराबारा, सुरिंदर नगर के रूप में विदित आबादी, तहसील		हजार मात्र)	
पंजाब — 141008 9 दि अ अ. 10 1. फ्रेंड्स ट्रेडर्स, पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 रु. 2 (रुप लुधियाना, पंजाब — 141008, स्थार कुमार,	देसंबर 2021 के अनुसार, प्लस अप्रयुक्त ब्याज	जमाबंदी वर्ष 1965—66 के अनुसार (खाता सं. 2899 / 3287, जमाबंदी वर्ष 2011—12 के अनुसार) जो ग्राम तरफ कराबारा, सुरिंदर नगर के रूप में विदित आबादी, तहसील	,		चौबीस मात्र
 अ गं. फ्रेंड्स ट्रेडर्स, पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 १०. ४ १०. ४<!--</td--><td>अनुसार, प्लस अप्रयुक्त ब्याज</td><td>सं. 2899 / 3287, जमाबंदी वर्ष 2011—12 के अनुसार) जो ग्राम तरफ कराबारा, सुरिंदर नगर के रूप में विदित आबादी, तहसील</td><td></td><td></td><td></td>	अनुसार, प्लस अप्रयुक्त ब्याज	सं. 2899 / 3287, जमाबंदी वर्ष 2011—12 के अनुसार) जो ग्राम तरफ कराबारा, सुरिंदर नगर के रूप में विदित आबादी, तहसील			
31. फ्रेंड्स ट्रेडर्स, 27 र पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 रु. 2 18 / 1 सुभाष नगर, (रुप लुधियाना, पंजाब — 141008, चौवह 2. रवींद्र कुमार,	अप्रयुक्त ब्याज	अनुसार) जो ग्राम तरफ कराबारा, सुरिंदर नगर के रूप में विदित आबादी, तहसील			
10 1. फ्रेंड्स ट्रेडर्स, पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 18 / 1 सुभाष नगर, लुधियाना, पंजाब — 141008, स्थाद कुमार,		नगर के रूप में विदित आबादी, तहसील			
1. फ्रेंड्स ट्रेडर्स, पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 रु. 2 18/1 सुभाष नगर, लुधियाना, पंजाब — 141008, चौवह 2. रवींद्र कुमार, स	दिसंबर 2021				
पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 रु. 2 18/1 सुभाष नगर, (रुप लुधियाना, पंजाब — 141008, चौवह २. रवींद्र कुमार, स		। और जिला लिधयाना में स्थित है।			
पुराना जीवन मॉडल स्कूल, 10 रु. 2 18 / 1 सुभाष नगर, (रुप लुधियाना, पंजाब — 141008, चौवह २. रवींद्र कुमार, स	से	3			
3 18 / 1 सुभाष नगर, (रुप लुधियाना, पंजाब — 141008, चौवह २. रवींद्र कुमार, स	अक्टूबर 2021	100 वर्ग गज माप की संपत्ति के सभी वह	₹.	₹.	₹.
लुधियाना, पंजाब — 141008, वौवह २. रवींद्र कुमार, स	20,74,669 / -	भाग तथा अंश जो खसरा नं. 1326 / 501 /	14,00,000 / —	1,40,000 / -	25,28,018 /
2. रवींद्र कुमार,	पये बीस लाख	364—1275 / 501 / 364 खाता नं. 674 /	(रुपये चौदह	(रुपये एक	(रुपये पच्ची
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	हत्तर हजार छह		लाख मात्र)	लाख चालीस	लाख अड्डाई
3. सनीता रानी.	सौ उनहत्तर	के अनुसार, ग्राम तरफ गेहेववाल, एच.बी. नं.		हजार मात्र)	हजार अट्ठा
3	मात्र)	166, इंद्र कॉलोनी के रूप में विदित आबादी,			मात्र)
	अक्टूबर 2021	तहसील और जिला लुधियाना में स्थित तथा			
इंद्र कॉलोनी, राहों रोड, बस्ती के	अनुसार प्लस	निम्नानुसार परिसीमित हैः पूर्व— प्लॉट नं. 68			
जोधेवाल, लुधियाना, पंजाब – अ	213/11/ 2014	एडिम. 18', पश्चिम— गली 20' चौधी एडिम.			
141007	अप्रयुक्त ब्याज				
27 अ	-	18', उत्तर— नेबरर एडमि. 50', दक्षिण—			

जमा करने की अंतिम तिथि 20/06/2023 को पूर्वोह्न 11.00 बर्ज या उससे पहले हैं। निविदाएं/बोलियां जो भरी अमान्य मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकार कर दी जाएंगी।

धराज राशि का भृगतान ''एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में लुधियाना में भृगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट / पे—ऑर्डर के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापस किया जायेगा।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 06/06/2023 को पूर्वीह्न 11.00 बजे से सायं 4.30 बजे तक है। 4. उपरोक्त शाखा कार्यालय के पते पर संपत्ति के लिए बोली / प्रस्ताव खोलने की तिथि (नीलामी तिथि) 20/06/2023 को अपराहन 12.30 बजे है। निविदा/बोली सभी

बोलीदाताओं के साथ प्राधिकत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जाएगी। उच्चतम बोली राशि उद्धत करनेवाले बोलीदाता को संपत्ति बेची जाएगी। परस्पर बोलीदान प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर होगा। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा / बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / निरस्त करने की पूर्ण शक्ति एवं अधिकार है। संपत्ति को आरक्षित्

सूचना में उद्धृत बकाया राशि और इस राशि के भृगतान होने तक इस पर देय एवं भृगतानयोग्य होनेवाले आकरिमक व्ययों, लागतों, इत्यादि पर ऋण अनुबंधानुसार, प्रयोज्यानुसार भावी ब्याज वसूल किया जायेगा। नीलामी विक्रय के विस्तुत नियम और शर्तों को निर्धारित निविदा प्रपत्र में सम्मिलित किया गया है। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त प्रधान/शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं।

8. कोई भी शुल्क, प्रभार, कर, जिसमें हस्तांतरण/संवहन प्रभार, अप्रदत्त बिजली शुल्क, जल शुल्क, नगरपालिका/स्थानीय कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, उनका भुगतान केवल क्रेता को ही वहन करना होगा। सभी देय / बकाया / अप्रदत्त कर जिसमें सुरक्षित संपत्ति पर बिक्री कर, संपत्ति कर, आदि या कोई अन्य देयक, वैधानिक या अन्यथा शामिल हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हैं, क्रेता द्वारा अलग से वहन किया जाएगा।

10. प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात ऋणभारः शून्य 11. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (धराज समायोजित करने के बाद) तूरंत जमा करना होगा और शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर जमा होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि बिक्री मुल्य का भूगतान करने में विफल रहने पर ईएमडी सहित सभी जमा राशियों को बिना किसी भावी सुचना के जब्त कर लिया जायेगा। हालांकि असाधारण स्थितियों में शेष 75% भुगतान करने के लिए और अधिक उचित समय का विस्तार प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर किया जायेगा। 12. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उनके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और अभिलेखों के अनुसार उल्लेखित हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रृटि, त्रृटिपूर्ण–विवरण या

चुक इत्यादि के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। 13. बोली हस्तांतरणीय नहीं है।

14. बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट "मैसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में केवल लूधियाना में देय अनुसार बनाया जाना चाहिए।

15. ऋणकर्ता / सह—ऋणकर्ता को सरफॉएसि अधिनियम 2002 के तहत 15 दिनों की वैधानिक विक्रय सुचना निर्गत की जाती है ताकि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त अंकित राशि का भुगतान करने में समर्थ हो सकें, ऐसा न करने पर अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष, यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागतों सहित की जायेगी। यदि ऋणकर्ता विक्रय की तिथि से पहले एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) को देय राशि का पूरा भुगतान करता है, तो नीलामी रोक दी जायेगी। 16. एतद्दवारा ऋणकर्ता, सह—ऋणकर्ता को विक्रय के समय पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहने की सूचना निर्गत की जाती है और वे विक्रय के नियम और शर्तों के विवरणों

के अनुसार, यहां इसमें ऊपर वर्णितानुसार अचल संपत्ति क्रय करने के इच्छुक क्रेताओं /खरीदारों को अपने साथ ला सकते हैं।

दिनांक : 28-मई-2023

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (Chairman and Managing Director) **DIN-00012158**

Place : Gurugram

Date : 26 May, 2023

VLS FINANCE LIMIT

Regd. Office: 1st Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi- 110020 Ph: 91(11) 46656666 Fax: 91(11) 46656699 CIN: L65910DL1986PLC023129 Email: vls@vlsfinance.com; Website: www.vlsfinance.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(Rupees in Lakhs except Earning per Share of										
Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
	Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
	31-Mar-2023	31-Dec-2022	31-Mar-2022	31-Mar-2023	31-Mar-2022	31-Mar-2023	31-Dec-2022	31-Mar-2022	31-Mar-2023	31-Mar-2022
	Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Revenue from continuing operations	(1,427.55)	7,020.81	2,983.64	7,725.11	28,628.73	(1,366.98)	7,103.74	3,116.20	8,440.30	23,234.45
Net Profit/(Loss) for the period before tax (Before Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	(2,397.24)	6,560.85	2,558.08	5,358.15	26,665.14	(2,423.77)	6,580.91	2,582.46	5,802.68	21,001.94
Net Profit((Loss) for the period before tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	(2,397.24)	6,560.85	2,558.08	5,358.15	26,665.14	(2,423.77)	6,580.91	2,582.46	5,802.68	21,001.94
Net Profit((Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	(1,550.28)	5,288.65	2,827.82	5,244.00	25,438.94	(1,572.54)	5,306.84	4,285.76	5,597.08	21,022.45
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from discontinuing operations		## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	1.0	35		*	525	E 35		
Net Profit((Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing and discontinuing operations	(1,550.28)	5,288.65	2,827.82	5,244.00	25,438.94	(1,572.54)	5,306.84	4,285.76	5,597.08	21,022.45
Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income for the period)	(12,505.98)	2,193.74	(26,785.28)	(14,864.07)	36,321.37	(19,456.55)	(9,293.27)	(55,643.84)	(39,693.58)	54,101.07
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share)	3,535.00	3,878.42	3,878.42	3,535.00	3,878.42	3,535.00	3,878.42	3,878.42	3,535.00	3,878.42
Reserves excluding Revaluation reserves as per Balance Sheet as on March 31, 2023				1,45,797.78	1,67,097.53				2,46,524.35	2,92,653.62
Earning Per Share (before Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
-Basic (not annualised) (**)	(4.01)	13.68	7.31	13.57	65.80	(4.07)	13.73	11.09	14.49	54.37
-Diluted (not annualised) (**)	(4.01)	13.68	7.31	13.57	65.80	(4.07)	13.73	11.09	14.49	54.37
Earning Per Share (after Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
-Basic (not annualised) (**)	(4.01)	13.68	7.31	13.57	65.80	(4.07)	13.73	11.09	14.49	54.37
-Diluted (not annualised) (**)	(4.01)	13.68	7.31	13.57	65.80	(4.07)	13.73	11.09	14.49	54.37

Note:

Place: New Delhi

Date: 27-05-2023

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of Quarterly/Annual financial Results are available on the website of the Company (www.vlsfinance.com) and the National Stock Exchange of India Ltd.(www.nseindia.com) and the Calcutta Stock Exchange (www.cse-india.com). The specified items of the standard financial results of the Company for the quarter and the year ended 31 March 2023 are given above.

2. The above audited financial results for the guarter and the year ended 31 March 2023 were approved and taken on record in the Board Meeting held on 27.05.2023 after being reviewed and recommended by the Audit Committee on the same date and have been subjected to audit by the statutory auditors of the Company.

- The Board of Directors of the Company in its meeting held on 05-Jan-2023 has approved buy-back of its own shares by the Company from open market through stock exchange route in terms of proviso to clause (b) of sub section 2 of section 68 of the Companies Act, 2013 and other applicable regulations. The buyback so approved has opened from 16/01/2023 and 34,34,235 equity shares of Rs 10/- each have been bought back and got extinguished till 31/03/2023.
- The figures for the last quarter of the year ended on 31 March 2023 and last quarter of the previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures upto third quarter, for both years. 5. The Board of Directors have proposed a dividend of Rs. 1.50 per equity share i.e. 15% on face value of Rs.10/- per share, for the financial year ended 31-March 2023, subject to approval of the members of the Company at the forthcoming Annual

General Meeting. Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to current period classification and rounding off errors have been ignored.

Managing Director DIN:00106763

Chandigarh











By order of the Board for VLS Finance Limited

S.K. AGARWAL